

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(राशि मिलियन यूएस\$ में)

मद	2023-24	2023	2024	
		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1093	69	77	104
1.2 राशि	24156	644	1820	2021
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	9	0	5	3
2.2 राशि	2473	0	1270	275
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1102	69	82	107
3.2 राशि	26629	644	3090	2296
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.72	5.20	3.70	5.80
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 अस्थिर दर के ऋणों@ के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर पर भारित औसत मार्जिन	1.68	1.53	1.33	1.77
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-11.80	0.01-10.50	0.00-11.00	0.00-10.00

उधारकर्ता श्रेणियाँ

I. कॉरपोरेट विनिर्माण	6925	160	166	591
II. कॉरपोरेट - बुनियादी संरचना	8396	156	706	341
ए) परिवहन	333	37	100	75
बी) ऊर्जा	2235	111	55	152
सी) पानी और सफाई व्यवस्था	32	0	0	0
डी) संचार	1538	1	0	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	530	0	1	0
एफ) अन्वेषण, खनन और रिफाइनरी	2085	0	550	10
जी) अन्य उप-क्षेत्र	1643	7	0	104
III. कॉरपोरेट सेवा क्षेत्र	1773	66	13	330
IV. अन्य संस्थाएं	1805	0	0	0
ए) एसईजेड में इकाई	6	0	0	0
बी) सिडबी	0	0	0	0
सी) एक्विजि बैंक	1800	0	0	127
V. बैंक	0	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी के अलावा)	0	0	20	0
VII. एनबीएफसी	7540	216	2145	902
ए) एनबीएफसी - आईएफसी / एएफसी	3031	0	1437	398
बी) एनबीएफसी - एमएफआई	313	0	0	11
सी) एनबीएफसी - अन्य	4196	216	708	493
VIII. गैर -सरकारी संगठन (एनजीओ)	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)	0	0	0	0
X. अन्य	189	46	40	5

टिप्पणी: ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों के आधार पर जिन्हें निर्धारित अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या आबंटित की गई है।
@ 01 जुलाई, 2023 से लागू, बेंचमार्क दर को बदलकर वैकल्पिक संदर्भ दर कर दिया गया है।